

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 26, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्र. 28853-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 17 दिसम्बर, 2015

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.